

CHINMAYA VIDYALAYA KUNNUMPURAM

ANNUAL EXAMINATION 2018 – 19

Std: VII

HINDI

Marks: 60

Time: 2hrs

खण्ड क

I. निम्नलिखित अवतरणों से किसी एक विषय के बारे में अनुच्छेद लिखो:- (5)

1. हमारा देश भारत

या

सूरदास

II. निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए:- (5)

2. चिडियाघर की सैर का वर्णन करते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए।

III. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए:- (5)

ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान थे। एक दिन वे रेलगाडी से कहीं से आ रहे थे। जब वे स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने देखा कि एक नवयुवक स्टेशन पर खड़ा था और कुली ! कुली ! पुकार रहा था। स्टेशन छोटा था इसलिए वहाँ कोई कुली नहीं था। ईश्वरचंद्र को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि युवक के पास भारी सामान नहीं था बल्कि एक छोटा सा सूटकेस था। ईश्वरचंद्र उस युवक के पास पहुँचे और बोले, “ लाइए, आपका सूटकेस मैं उठा देता हूँ। ” युवक यहाँ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से ही मिलने आया था। ईश्वरचन्द्र ने धोती कुरता पहन रखा था। इसलिए युवक उन्हें पहचान न पाया। स्टेशन से बाहर निकलने पर युवक ने उन्हें कुछ पैसे दिए, मगर ईश्वरचन्द्र ने नहीं लिए। युवक को लगा शायद पैसे कम हैं, इसलिए व्यक्ति उन्हें लेने से इन्कार कर रहा है। उसने अधिक पैसे देने चाहे, पर ईश्वरचन्द्र बोले, “मैंने आपका सूटकेस पैसों के लिए नहीं उठाया। मैंने तो बस आपकी सहायता की थी।” अगले दिन युवक ईश्वरचन्द्र से ही मिलने पहुँचा। तो उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसे अपने पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने ईश्वरचन्द्र जी के चरणों में गिर कर क्षमा याचना की। ईश्वरचन्द्र ने कहा, “ बेटे! प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में अपना कार्य स्वयं करोगे। ”

प्रश्न:-

3. ईश्वरचन्द्र कौन थे ?
4. युवक स्टेशन पर खड़ा होकर किसे पुकार रहा था ?
5. युवक के पास क्या था ?
6. युवक वहाँ किससे मिलने आया था ?
7. ईश्वरचन्द्र ने युवक से क्या प्रतिज्ञा करवाई ?

IV. निर्देश के अनुसार लिखो:-

i. अर्थ लिखो:- (3)

8. अलक    9. मेधावी    10. उपासिका    11. आरंभिक    12. योग्यता    13. विश्वास

ii. पर्यायवाची शब्द लिखो:- (2)

14. प्रसन्न    15. निराला

iii. अनेकार्थक शब्द लिखो:- (2)

16. डाल    17. हार

iv. विलोम शब्द लिखो:- (2)

18. विश्वास    19. दिन    20. पूरा    21. आज

v. निम्नलिखित पदों में आए समास का नाम लिखो:- (2)

22. पेड़ - पौधे    23. आपबीती

vi. इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो:- (1)

24. साहस से संबंधित

vii. पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार का प्रयोग करो:- (3)

25. पतङ्ग    26. कम्बल    27. झण्डा

viii. निम्नलिखित शब्दों का वर्ण - विच्छेद करो:- (2)

28. व्यापारी      29. प्रमेय

ix. गिनती लिखो:- (3)

30. 75      31. 79      32. 72

x. निर्देशानुसार बदलकर लिखो:- (2)

33. लडके मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। (संदिग्ध वर्तमानकाल में बदलो)

34. राम स्कूल जाता है। (तात्कालिक वर्तमानकाल में बदलो)

xi. मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग-अलग करके लिखो:- (1)

35. कलाकार = ----- + -----

### खण्ड ख

xi. एक - एक वाक्य में उत्तर लिखो:- (5x1=5)

36. " मैं रूठूँ माँ और मना तू ..... " कविता के कवि कौन हैं?

37. "तैं ही पूत अनोखौँ जायौँ"--- में ग्वालिन के मन का कौन - सा भाव प्रकट हो रहा है?

38. मोटर का जन्म कहाँ हुआ?

39. 1913 में रामानुजन ने किसे पत्र लिखा?

40. कौन कह रहा है ---- हम होंगे कामयाब ?

xii. दो - तीन वाक्यों में उत्तर लिखो:- (6x2=12)

41. कृष्ण गाय चराने वन में क्यों जाना चाहते हैं ?

42. किसानों के लिए बैलगाड़ी किस प्रकार उपयोगी है ?

43. बैलगाड़ी ने मोटर को " हिंसा की उपासिका " क्यों कहा ?

44. रामानुजन के जीवनकाल की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन करें ?

45. भय समाप्त होने का कारण क्या है ?

46. ऐसा विश्वास क्यों जताया गया है कि हम जरूर कामयाब हो जाएंगे?

xiii. पद्य पूरा करो :- ( कवि और कविता का नाम लिखो ) (1x5=5)

47. होंगे कामयाब -----

----- एक दिन्। (पहली बारह पंक्तियाँ)

\*\*\*\*\*

